

# तृणमूल नेता के घर के नीचे चल रही थी नकली शराब फैक्ट्री, पुलिस ने 40 लाख के उपकरण किए जब्त

बिहार पुलिस (Bihar Police) ने सिलीगुड़ी पुलिस (Siliguri Police) की मदद से इसका खुलासा किया है. तृणमूल (TMC) के नेता के घर से 40 लाख रुपये मूल्य के नकली शराब बनाने के उपकरण जब्त किये गये हैं.



- **अजय विद्यार्थी**
- Publish Date - 4:15 pm, Sun, 25 July 21



फोटो: सिलीगुड़ी में टीएमसी नेता के घर के नीचे चल रही थी शराब बनाने की फैक्ट्री.

पश्चिम बंगाल (West Bengal) में तृणमूल कांग्रेस (All India Trinamool Congress) के नेता के घर नकली शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है. पुलिस ने सिलीगुड़ी अनुमंडल के बिधान नगर स्थित तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के क्षेत्रीय अध्यक्ष के घर से करीब 40 लाख रुपये मूल्य की शराब बनाने के उपकरणों को बरामद किया. बिहार पुलिस ने आरोपी विश्वजीत सरकार को पहले ही गिरफ्तार किया था. हालांकि टीएमसी आरोपी से पार्टी के संबंध मानने से इनकार कर रही है.

बिहार पुलिस (Bihar Police) ने सिलीगुड़ी पुलिस (Siliguri Police) की मदद से इसका खुलासा किया है. तृणमूल (TMC) के नेता के घर से 40 लाख रुपये मूल्य के नकली शराब बनाने के उपकरण जब्त किये गये हैं. पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी.

## बिहार पुलिस ने 19 जुलाई को टीएमसी नेता की थी गिरफ्तारी

पुलिस सूत्रों के मुताबिक पिछले कुछ समय से नकली शराब की तस्करी उत्तर बंगाल के रास्ते बिहार में होने की खबरें आ रही थी. जांचकर्ताओं को शुरू में यह समझ में नहीं आया कि अंतरराज्यीय ड्रग रैकेट में कौन शामिल है. 19 जुलाई को बिहार पुलिस ने तृणमूल नेता को गिरफ्तार किया था. पूछताछ के आधार पर पुलिस ने शनिवार रात उनके घर की तलाशी ली. घर के नीचे नकली शराब बनाने की फैक्ट्री का खुलासा हुआ. शराब की तस्करी एक राज्य से दूसरे राज्य में की जाती थी.

## पुलिस ने भारी मात्रा में जब्त की शराब

पुलिस ने बताया कि 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बिधाननगर सहदरगछ इलाके में स्थित इस मकान से 200 लीटर स्पिरिट भरा 90 ड्रम बरामद किये गये. इसके अलावा 24 कांच की बोतल भरे 30 कार्टून, 50 खाली ड्रम के अलावा 1 प्लास्टिक जार बरामद किया गया. पुलिस का अनुमान है कि स्पिरिट से भरे प्रत्येक ड्रम की कीमत 45,000 रुपये है. जब्त की गयी कुल स्पिरिट का बाजार मूल्य करीब 40 लाख 50 हजार रुपये आंका गया है.

## टीएमसी ने नेता से झाड़ा पल्ला

तृणमूल कांग्रेस के जिला प्रवक्ता बेदब्रत दत्त ने कहा, "हमने विश्वजीत सरकार को पार्टी से निकाल दिया है. टीम को यह बर्दाश्त नहीं है. विश्वजीत का तृणमूल (टीएमसी) से कोई संबंध नहीं है." दूसरी ओर, बीजेपी के जिला महासचिव राजू साहा ने कहा, "अब तृणमूल जिम्मेदारी से बच रही है, क्योंकि सब कुछ सार्वजनिक हो रहा है. बिहार पुलिस ने आकर उसे गिरफ्तार किया, लेकिन बंगाल पुलिस को कुछ पता नहीं चला? इससे साफ पता चलता है कि पुलिस की मिलीभगत थी.

Source: <https://www.tv9hindi.com/state/west-bengal/west-bengal-fake-liquor-factory-was-running-under-the-house-of-trinamool-leader-police-confiscated-equipment-worth-40-lakhs-751159.html>